

LOOK N LEARN Children's Jain E-book

Serial No. 33



The knowledge of
32 Aagams
in your phone



To subscribe please  Watts app - Jai Jinendra on +91 8104461579

Inspired by Rashtrasant Param Gurudev Shree Namramuni Maharaj Saheb



Types of sins - Part 1

How many types of sins are there?

पाप कितने प्रकार से किए जाते हैं ?

There are 18 ways to commit a sin. These are known as 18 Paapasthanak.

पाप १८ प्रकार से किए जाते हैं, इन्हें १८ पापस्थानक कहते हैं।



LET US AVOID THEM

AND MAKE OUR SOUL PURE!

1. Violence (Pranatiapat)

१. हिंसा (प्राणातिपात)

To cause suffering or to kill any living being is called violence. It can be through either mind, body or speech.

किसी भी जीव (छोटा-बड़ा) को मारना, पीड़ा देना उसे हिंसा कहते हैं। यह हिंसा मन, वचन या काया से होती है।

Will kill 2 birds with 1 stone



No hit no hurt, only love all living beings

2. Untruth (Mrishavad)

२. असत्य (मृषावाद)

To tell a lie to someone is called being untruthful.

किसी को असत्य या झूठ बोलना उसे मृषावाद कहते हैं।

I didn't do



I will always speak truth

3.Theft (Adattadan)

३. चोरी (अदत्तादान)

To take something without asking anyone or to steal something is called as theft.

किसी की कोई भी चीज या वस्तु को बिना पूछे उससे लेना उसे चोरी या अदत्तादान कहते हैं।



I will always seek permission before taking others belongings

4. Unchaste (Maithun)

४.अब्रह्मचर्य (मैथुन)

To engage in sensuous enjoyment or having high desire for lust and sensual pleasures means being unchaste.

इन्द्रियो के आवेश में आना या वासना की तीव्र इच्छा होना, कामभोग का आनंद लेना उसे मैथुन कहते हैं।



I will try to control my desires

5. Possessiveness (Parigraha)


५. अधिकार (परिग्रह)

Attachment to worldly possessions like house, clothes, car, wealth, etc... is called Parigraha. It comes when we try to accumulate more than what we need.

घर, कपड़े, मिल्कत, गाडी, आभूषण आदि पर आसक्ति रखना, अधिकार करना या जितने की जरूरत (आवश्यकता) है उससे ज्यादा का संग्रह करना उसे परिग्रह कहते हैं।



Want
more



I will always speak truth

6. Anger (Krodh)

६. क्रोध (गुरसा)

When we don't get what we want, we get upset and mad and it becomes hard to differentiate between right and wrong. Our response to anything that we don't like, which upsets us is called Anger.

जब हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता तो हम उदास हो जाते हैं और आक्रोश में आकर क्रोधित हो जाते हैं। तब हम मानसिक संतुलन खो देते हैं और सही और गलत का फर्क नहीं समझते हैं, उसे क्रोध कहते हैं।



I am a peaceful soul